



## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

### प्रलिस के लिये:

CSIR तथा इसकी वभिन्न पहलें

### मेन्स के लिये:

CSIR तथा भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में इसका योगदान

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से [वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद](#) (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता की।

- इससे पहले [CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन](#) (CSIR Floriculture Mission) को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई थी।
- यह बीमारी के लिये अद्वितीय आनुवंशिक लक्षण, संवेदनशीलता (और प्रतिरोधकता) निर्धारित करने के लिये लगभग 1000 भारतीय ग्रामीण युवाओं के नमूने की [जीनोम अनुक्रमण](#) करने की भी योजना बना रहा है।

## प्रमुख बडि

### CSIR के बारे में:

- यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है। 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों के एक सक्रिय नेटवर्क के साथ इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है।
- [स्कमिगो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021](#) (Scimago Institutions Ranking World Report 2021) के अनुसार, यह विश्व भर के 1587 सरकारी संस्थानों में 37वें स्थान पर है और शीर्ष 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में एकमात्र भारतीय संगठन है।
  - एशिया में CSIR 7वें स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष (पदेन) होता है तथा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसका उपाध्यक्ष (पदेन) होता है।

### वित्तपोषण

- CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा का वित्तपोषण किया जाता है तथा यह [सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860](#) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है।

### स्थापना:

- सितंबर 1942

### अवस्थिति:

- नई दिल्ली

### उद्देश्य:

- परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है। रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी (Space

Physics), समुद्र वजिज्ञान (Oceanography), भू-भौतिकी (Geophysics), रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स (Genomics), जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी (Aeronautics), उपकरण वजिज्ञान (Instrumentation), पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तक की एक वसितृत वषिय शृंखला इसके दायरे में आती है।

- यह सामाजिक परयासों के संबंध में कई कषेत्रों जैसे- पर्यावरण, स्वास्थय, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि-कषेत्र और गैर-कृषि-कषेत्र में महत्त्वपूर्ण तकनीकी हस्तकषेप प्रदान करता है।

## CSIR की कुछ प्रमुख पहलें:

### ■ कोवडि-19 से संबंधित:

- महामारी के कारण उभरती स्थितिसे नपिटने के लिये CSIR ने पाँच प्रौद्योगिकी कार्यकषेत्र स्थापति किये हैं:
  - डजिटिल और आणविक नगिरानी।
  - रैपडि तथा कफियाती नदिान।
  - औषधियों, वैक्सीन और कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का पुनर्परयोजन (Repurpose)।
  - अस्पताल सहायक उपकरण और व्यक्तगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE)।
  - आपूर्ति शृंखला और लॉजिस्टिक्स समर्थन प्रणाली।

### ■ सामरिक कषेत्र में:

- हेड-अप-डसिप्ले (HUD): इसने भारतीय हलके लड़ाकू वमिान तेजस के लिये स्वदेशी हेड-अप-डसिप्ले (HUD) विकसित किये है। HUD वमिान की उड़ान और हथियार लक्ष्यीकरण सहित महत्त्वपूर्ण उड़ान युद्धाभ्यास में वमिान चालक की सहायता करता है।

### ■ ऊर्जा तथा पर्यावरण के कषेत्र में:

- सोलर ट्री (Solar Tree): यह स्वच्छ बजिली का उत्पादन करने के लिये न्यूनतम स्थान घेरता है।
- लथियम-आयन बैटरी: 4.0 V/14 h मानक सेल बनाने के लिये स्वदेशी नवीन सामग्री पर आधारित भारत की पहली लथियम आयन बैटरी नरिमाण सुवधि स्थापति की गई है।

### ■ कृषिके कषेत्र में:

- सांबा मसूरी चावल प्रजाति: ICAR के साथ मलिकर इसने सांबा मसूरी चावल की एक बेहतर बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी कसिम विकसित की है।
- चावल की कसिम (मुक्ताश्री): चावल की एक ऐसी कसिम विकसित की गई है जो अनुमेय सीमा के भीतर आर्सेनिक को आत्मसात करने से रोकती है।
- सफेद मक्खी (Whitefly) प्रतिरोधी कपास प्रजाति: एक ट्रांसजेनिक कपास कसिम विकसित की गई जो कसिफेद-मक्खी के लिये प्रतिरोधी है।

### ■ स्वास्थय-देखभाल कषेत्र में:

- चकितिसा नरिणय को सकषम करने के लिये जीनोमिक्स तथा अन्य ओमिक्स प्रौद्योगिकियाँ (GOMED): नैदानिक समस्याओं को हल करने के संदर्भ में रोग जीनोमिक्स का एक मंच प्रदान करने हेतु CSIR द्वारा GOMED (Genomics and other Omics Technologies for Enabling Medical Decision) का विकास किये गया गया है।

### ■ खाद्य एवं पोषण के कषेत्र में:

- कषीर स्कैनर (Ksheer-scanner): यह 10 पैसे की लागत पर 45 सेकंड में दूध के मलावट स्तर और मलावटी पदार्थ का पता लगाता है।
- डबल फोर्टिफाइड नमक (Double-Fortified Salt): CSIR ने आयोडीन और आयरन के साथ फोर्टिफाइड नमक का विकास किये गया है जो लोगों में एनीमिया रोग को दूर कर सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.